

प्रेस नोट दिनांक 28.12.2020

इटावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तार ।
अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन
में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी
सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 02 जिंदा
कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 28.12.20 को थाना चौबिया पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु थाना चौबिया क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी, इसी क्रम में पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति चौपुला पुल पर संदिग्ध प्रतीत हो रहा है जिसके पास अवैध असलहा भी है । पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए चौपुला पुल पर पहुंचा गया तो पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास किया गया जिसको पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर घेरकर केशोपुर रोड से पकड़ लिया गया । जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुये । पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति से नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम सुनील उर्फ मोटा पुत्र मेहताब सिंह निवासी डुडहा बनी हरदू थाना चौबिया बताया गया । पुलिस टीम द्वारा तमंचा के प्रपत्र मांगे गये तो वह प्रपत्र दिखाने में असमर्थ रहा ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 272/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुनील उर्फ मोटा पुत्र मेहताब सिंह निवासी डुडहा बनी हरदू थाना चौबिया ।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 व बोर 02 कारतूस जिंदा 315 बोर ।

पुलिस टीम

1. श्री राजीव यादव थानाध्यक्ष थाना चौबिया जनपद इटावा मय टीम ।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा**